



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 220 राँची, मंगलवार,

12 मार्च, 2019 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

7 मार्च, 2019

विषय :- केन्द्र प्रायोजित National Social Assistance Programme अन्तर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अधीन लाभुकों को देय पेंशन राशि रू०-600/- प्रतिमाह में वृद्धि कर रू०-1,000/- प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

संख्या- 637-- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित National Social Assistance Programme अन्तर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत सम्प्रति राज्य के आच्छादित लाभुकों को निम्नरूपेण पेंशन भुगतान किया जा रहा है :-

क्र०	योजना का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रू० 300/-	रू० 300/-	रू० 600/-

2. योजनान्तर्गत लाभुकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-26.02.2019 की बैठक की मद संख्या-08 में दी गई स्वीकृति के आलोक में लाभुकों को उपरोक्त देय मासिक पेंशन राशि में वृद्धि कर प्रतिमाह निम्नवत् करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रु० 300/-	रु० 700/-	रु० 1000/-

3. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा। उसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभुकों को ऊपर वर्णित किसी भी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

4. योजनान्तर्गत लाभुकों को देय मासिक पेंशन राशि में वृद्धि दिनांक-01.04.2019 से प्रभावी होगी।

5. पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-07/श्र०नि०, दिनांक-09.01.2014 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
